



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1474]  
No. 1474]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 12, 2006/अग्रहायण 21, 1928  
NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 12, 2006/AGRAHAYANA 21, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2091(अ).— केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग (किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी पुलों/अस्थायी पुलों के उपयोग के लिए शुल्क वसूल करना) नियम, 1997 के नियम 3 और नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा, 8क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय, की अधिसूचना सं. का. आ. 376(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2000 जो भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड {II} में तारीख 11 अप्रैल, 2000 को प्रकाशित हुई थी को अधिकांत करते हुए, गुजरात राज्य में वसाह के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 91 कि.मी. से 93 कि.मी. के बीच माही नदी को पार करने जिसमें इसकी पहुंचनी है, सड़क निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में अर्न्तवर्लित व्यय, विनिधित पूंजी पर व्याज विनिधित पूंजी पर युक्तियुक्त वसूली, यातायात की मात्रा और में. विजय मिस्त्री कंस्ट्रक्शन और राजकमल बिल्डर्स प्रा. लि. जिसका कार्यालय 501, स्वागत, सी. जी. रोड, इलीस ब्रिज, अहमदाबाद-306006 के साथ हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचित करती है कि इससे राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खंड के उपयोग के लिए यांत्रिक यानों पर नीचे अनुसूचि में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उदग्रहीत और संदत्त किया जाएगा और उक्त में. विजय मिस्त्री कंस्ट्रक्शन और राजकमल बिल्डर्स प्रा. लि. को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 8 दिसम्बर, 2006 तक उक्त अनुसूचि में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है।

## अनुसूची

(गुजरात राज्य में कसाह के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर माही नदी को पार करने के लिए पुल के प्रयोग के संबंध में प्रदत्त सेवाएँ या लाभ देने के लिए शुल्क की दर)

क्रम सं.	वाहनों की श्रेणियाँ	शुल्क की दरें प्रति यान प्रति घंटा (रुपयों में)
	2	3
1.	मोटर साइकिल, स्कूटर और अन्य कोई दुपहिया यंत्र चालित वाहन	कोई नहीं
2.	मोटर कार, टैक्सी, जीप, वैन, ऑटो रिक्शा, लिपहिया स्कूटर,	10.00
3.	हल्के वाणिज्यिक वाहन	20.00
4.	बस, ट्रक और माल अथवा यात्रियों से लदे ट्रक ट्रेलर संयोजन सहित	25.00
	अन्य भारी वाहन लदे हुए/बगैर लदे हुए	
5.	भारी निर्माण मशीन अन्य यंत्र चालित वाहन जिनका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है, जैसे मोबाइल क्रेन, अर्थ मूवर्स, रोड रोलर लदे हुए/बगैर लदे हुए	75.00

## टिप्पण :-

- निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को उपर्युक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क से छूट प्रदान की गई है अर्थात् :-
  - रक्षा वाहन,
  - पुलिस वाहन,
  - अतिविशिष्ट व्यक्ति प्रतीक वाले वाहन,
  - अग्नि शमन वाहन,
  - एम्बुलेंस,
  - अन्त्येष्टि वाहन,
  - डाक और तार विभाग के वाहन,
  - केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यरत वाहन।
- निम्नलिखित के साथ सरकारी रूप से संबंधित वाहनों को अति विशिष्ट व्यक्ति/प्रतीक वाले वाहन समझा जाएगा : भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, केंद्र और राज्यों के मंत्री, लोक सभा/राज्य सभा में विपक्ष के नेता, राज्यों के राज्यपाल, केन्द्रीय अथवा राज्यों के विधान मंडलों के सभापति अथवा अध्यक्ष तथा केबिनेट स्तर के मंत्री, भारत में राज्य का दौरा कर रहे विदेशी उच्च पदाधिकारी, सी.डी. प्रतीक वाली कारों का उपयोग करने वाले भारत में ठहरे हुए विदेशी राजनयिक।
- शुल्क की दरें, शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग और उस प्राधिकारी का नाम, पता, टेलीफोन संख्या, जिसे शिकायत, यदि कोई हो, संबंधित की जानी चाहिए, पथकर चौकियों से 500 मी. आगे, पथकर चौकियों से 100 मी. आगे और पथकर चौकियों पर भी सहजदृश्य रूप से और प्रमुख रूप से संप्रदर्शित किए जाएंगे। संप्रदर्शन बोर्ड की उंचाई और अक्षरों का आकार इस प्रकार का होगा कि चालकों के लिए संप्रदर्शन बोर्डों को पढ़ना सहज हो और अंग्रेजी, हिन्दी और उस क्षेत्र की, जिसमें ब्रूखण्ड स्थित है, अन्य क्षेत्रीय भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा या मुद्रित किया जाएगा।

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
(Department of Road Transport and Highways)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th December, 2006

**S.O. 2091(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section(2) of section 8 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rules 3 and 5 of the National Highways (Collection of Fees by any person for the use of Section of National Highways/Permanent bridge/Temporary Bridge on National Highways) Rules, 1997 and in supersession of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport, number SO 376(E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2000 published in the Gazette of India Extraordinary, Part-II Section- 3, Sub-section (ii), dated the 11<sup>th</sup> April, 2000, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the part of National Highway, that is, 'bridge across river Mahi including its approaches between km 91 to 93 of National Highway 8 near Vasad, in the State of Gujarat, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of agreement entered into with M/s Vijay Mistry Construction and Rajkamal Builders Pvt. Ltd. having its office at 501, Swagat, C.G. Road, Ellis Bridge, Ahmedabad-386006, hereby notifies that there shall be levied and paid fees on mechanical vehicles for the use of the said part of National Highway at the rates specified in the Schedule below and authorises the said M/s Vijay Mistry Construction and Rajkamal Builders Pvt. Ltd. to collect and retain fees at the rates specified in the said Schedule from the date of publication of this notification upto 18<sup>th</sup> December, 2006.

**SCHEDULE**

(Rate of fee for services or benefits rendered in relation to the use of bridge across river Mahi on National Highway No.-8 near Vasad in the State of Gujarat.)

Sl. No.	Particulars of Vehicles	Fee Rates in Rs. per vehicle per trip
(1)	(2)	(3)
1.	Motor cycle, scooter or any other two-wheeled mechanically propelled vehicle.	Nil
2.	Motorcar, taxi, jeep, van, auto-rickshaws, three wheeler.	10.00
3.	Light Commercial Vehicles (LCVs)	20.00
4.	Bus, Truck and other heavy vehicles including Truck Traller combination- laden with goods/ passengers loaded or unloaded.	25.00
5.	Heavy construction machinery, other machinery propelled vehicles, not mentioned above like mobile cranes, earthmovers, road roller etc. loaded or unloaded.	75.00

**NOTES :-**

1 The following vehicles are exempted from the fee specified in the above Schedule namely:-

- (i) Defence vehicles;

- (ii) Police vehicles;
- (iii) Vehicles having VIP symbols;
- (iv) Fire-fighting vehicles
- (v) Ambulances;
- (vi) Funeral Vans;
- (vii) Post and Telegraph Departments vehicles;
- (viii) Central Government and State Government vehicles on duty.

2 The following vehicles shall be deemed to be vehicles having VIP Symbols, namely:- President and Vice President of India, Central and State Ministers, Leader of Opposition in Lok Sabha/Rajya Sabha, Governors, State Legislators having status of Cabinet Ministers/Executive Councilors/Speakers/Chairman of Central and State Legislatures, Foreign dignitaries on State visit to India, Foreign diplomats stationed in India using cars with CD symbols.

3 The rates of fee, the categories of vehicles exempted from payment of fee, the name, address and telephone number of the authority to whom complaints, if any, should be addressed, shall be conspicuously and prominently displayed 500 meters ahead of the toll booths, 100 meters ahead of the toll booths and at the toll booths also. The height of the display boards and size of letters being such that it is easy for drivers to read the display boards and shall be legibly written or printed in English, Hindi and other Regional language of the area in which the stretch is situated.

[F. No. NH-12016/87/97/WGJ-Vol. II (Part)]

PRABHAKAR, Dy. Secy.